



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 भाद्र 1944 (श0)

(सं0 पटना 618) पटना, बुधवार, 24 अगस्त 2022

गन्ना उद्योग विभाग

आदेश

11 अगस्त 2022

सं० 02/रेगु०-2-800-15/2020-1494—बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम-1981 की धारा-31(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, गिरिवर दयाल सिंह, ईखायुक्त, बिहार, पटना द्वारा पेराई सत्र 2022-23 से पेराई सत्र 2026-27 के लिए ईखापूर्ति हेतु गन्ना क्षेत्र के ग्रामों को मेसर्स **तिरूपति सुगर्स लि०, बगहा, प०चम्पारण** के साथ परम्परागत रूप में आरक्षण से संबंधित प्राप्त प्रस्ताव पर सभी संबंधित चीनी मिलों के प्रतिनिधियों, क्षेत्रीय ईख पदाधिकारियों, विभागीय पदाधिकारियों एवं अन्य संबंधितों के समक्ष दिनांक-10.08.2022 को सुनवाई की गई। विभागीय आदेश संख्या-1585 दिनांक-20.09.2017 के माध्यम से पूर्व में पेराई सत्र 2017-18 से 2021-22 तक के लिए इस चीनी मिल के लिए 24 ग्रामों का **परम्परागत** रूप से आरक्षित क्षेत्र गठित किया गया है।

अपने क्षेत्र आरक्षण के संबंध में बगहा चीनी मिल के महाप्रबंधक, श्री बी. एन. त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि उनके प्रबंधन द्वारा वर्ष 2008 में बगहा चीनी मिल का अधिग्रहण किया गया। उस समय यह चीनी मिल मात्र 2500 TCD क्षमता की थी। अधिग्रहण के पश्चात् मिल के पेराई क्षमता में लगातार सुधार किया गया तथा लगभग 350 करोड़ रुपये निवेश करने के पश्चात् आज इस चीनी मिल की दैनिक पेराई क्षमता 8000 TCD पहुँच गयी है। पेराई क्षमता में 4 गुणा वृद्धि होने के पश्चात् भी इस चीनी मिल को क्षमता अनुरूप ग्रामों का आरक्षण नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि इस चीनी मिल की वर्तमान क्षमता 10,000 TCD हो गयी है। सुनवाई के क्रम में श्री त्रिपाठी ने यह भी बताया कि उनके परम्परागत क्षेत्र के लगभग 40 प्रतिशत क्षेत्र रेता क्षेत्र में स्थित है। जिससे प्रत्येक वर्ष गण्डक नदी में बाढ़ आ जाने के कारण गन्ने की फसल का काफी नुकसान होता है। उन्होंने बताया कि चीनी मिल हेतु **Compact Reserve Area** का निर्धारण नहीं होने के कारण प्रत्येक वर्ष सीमावर्ती चीनी मिलों द्वारा उनके क्षेत्र से गन्ने की अवैध खरीद (Poaching) की जाती है, जिसका प्रभाव उनके मिल के पेराई क्षमता पर पड़ता है।

उन्होंने बताया कि पेराई सत्र 2022-23 के लिए उनके चीनी मिल का **Normal Cane Requirement (NCR)** 101.00 लाख क्विंटल निर्धारित हुआ है। उन्होंने अपने मिल की पेराई हेतु ईख की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूर्व से आरक्षित होते आ रहे 24 ग्रामों को पुनः उनके पक्ष में परम्परागत रूप से आरक्षित करने तथा इसके अतिरिक्त योगापट्टी प्रखण्ड के 21 ग्रामों को आरक्षित करने हेतु अनुरोध किया।

बगहा चीनी मिल द्वारा किये गये 21 अतिरिक्त ग्रामों के आरक्षण पर आपत्ति जताते हुए लौरिया चीनी मिल के उप महाप्रबंधक (ईख) श्री जी. डी. सिंह द्वारा बताया गया कि उनके चीनी मिल को पेराई योग्य गन्ने की काफी कमी है। अतः उनके द्वारा चीनी मिल के आरक्षित ग्रामों को किसी दूसरे चीनी मिल को आरक्षित नहीं किये जाने का अनुरोध किया गया।

सुनवाई के दौरान किसानों, उनके प्रतिनिधियों एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का अध्ययन किया गया। जिसमें योगापट्टी प्रखण्ड के अधिकांश किसानों द्वारा बगहा चीनी मिल के साथ एवं कुछ किसानों द्वारा लौरिया चीनी मिल के साथ संबद्ध करने का अनुरोध किया गया।

संयुक्त क्षेत्रीय विकास परिषद्, पश्चिम चम्पारण को विभागीय पत्रांक-1314 दिनांक-06.07.2022 एवं स्मार पत्र संख्या-1468 दिनांक-05.08.2022 के माध्यम से क्षेत्र आरक्षण के प्रस्ताव पर उनका मंतव्य उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था, परन्तु उनकी अनुशंसा विभाग को अबतक अप्राप्त है।

क्षेत्र आरक्षण से संबंधित कार्यालय में संधारित अभिलेखों एवं मय नजरी नक्शा का भी अध्ययन किया गया। इस चीनी मिल द्वारा पेराई सत्र 2021-22 का शत-प्रतिशत ईख मूल्य भुगतान कर दिया गया है।

सुनवाई के क्रम में मुख्य रूप से यह परिलक्षित हुआ कि बगहा चीनी मिल जो निरंतर अपने क्षमता का समयवद्ध रूप से विस्तार कर रही है, को खेती योग्य भूमि का अभाव है, जिस कारण इस मिल को पेराई हेतु आवश्यक गन्ने की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पा रही है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में संबंधित सभी पक्षों को सुनने के पश्चात् सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स **तिरुपति सुगर्स लि०, बगहा, प०चम्पारण** के पक्ष में **पेराई सत्र 2022-23 से 2026-27 तक** (पाँच वर्ष) के लिए :-

- मेसर्स तिरुपति सुगर्स लि०, बगहा, प०चम्पारण को पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत पूर्व में आरक्षित होते आ रहे 24 ग्रामों को जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **अनुसूची-“क”** एवं **“ख”** में अंकित है, को **परम्परागत** रूप से आरक्षित किया जाता है।
- विभागीय आदेश संख्या-1683 दिनांक-26.09.2017 के माध्यम से मेसर्स एच.पी.सी.एल. बायोफ्यूल्स लि०, इकाई-लौरिया को पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत योगापट्टी प्रखण्ड में आरक्षित 5 ग्राम जिसका नाम संलग्न **अनुसूची-“ग”** में अंकित है, को **परम्परागत** रूप से आरक्षित किया जाता है।

योगापट्टी प्रखण्ड के उक्त 5 ग्रामों के किसानों को यदि लौरिया चीनी मिल द्वारा **दादनी/ऋण** दी गयी है तो उसकी सूची सहित विवरण उनके द्वारा बगहा चीनी मिल प्रबंधन को उपलब्ध करायी जायेगी। बगहा मिल प्रबंधन संबंधित किसानों के ईखापूर्ति से राशि को प्राप्त कर लौरिया चीनी मिल का वापस किया जायेगा।

लेखापित एवं शुद्धित  
(गिरिवर दयाल सिंह)  
ईखायुक्त, बिहार।

आदेश से,  
गिरिवर दयाल सिंह,  
ईखायुक्त, बिहार।

**पेराई सत्र 2022-23 से 2026-27 तक के लिए तिरुपति सुगर्स मिल्स लि०, बगहा, प०चम्पारण को परम्परागत रूप में आरक्षित 29 ग्रामों की सूची:-**

**अनुसूची-“क”**

जिला का नाम	प्रखण्ड	क्रमांक	ग्राम का नाम	राजस्व थाना संख्या
प०चम्पारण	बगहा	01.	चंद्रहा	390
		02.	टोला पूर्वाशी	391
		03.	बथुवरिया	392
		04.	टोला भंगहा	393
		05.	गुरवलिया	394
		06.	जमुनिया	396
		07.	टोला गर्भशाही	397
	भितहौ	08.	के०बसौली	299
		09.	के.मानपुर	395
		10.	कन्हैयापुर	406
	मधुबनी	11.	प्रेमही	408
		12.	कुड़िया	296
		13.	कोल्हुआ	297
		14.	मठिया	298

अनुसूची-“ख”

जिला का नाम	प्रखण्ड	क्रमांक	ग्राम का नाम	राजस्व थाना संख्या
पंचम्पारण	बैरिया	01.	पटजिरवा	107
		02.	सुरजपुर	108
		03.	मसानढाब	109
		04.	निमुईया	121
	योगापट्टी	05.	गजना	362
		06.	वैसिया खाप	363
		07.	वैसिया	364
	ठकराहा	08.	हरिपुर	429
		09.	खैरखुट्टा	430
		10.	श्रीनगर	434

अनुसूची-“ग”

जिला का नाम	प्रखण्ड	क्रमांक	ग्राम का नाम	राजस्व थाना संख्या
पंचम्पारण	योगापट्टी	01.	रमपुरवा	352
		02.	बलुआ देव राय	353
		03.	बलुआ भवानी राय	354
		04.	ब्लुबा मुरत राय	355
		05.	बलुआ नेवाज राय	356

गिरिवर दयाल सिंह,  
ईखायुक्त, बिहार।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 618-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>